

February 06, 2026

<p>The Officer-In-Charge (Listing) Listing Department National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai - 400 051 Scrip Code: MINDACORP</p>	<p>Head - Listing Operations, BSE Limited, P.J. Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 Scrip Code: 538962</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub:Filing of clipping of the Un- Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter ended on December 31, 2025 published in the newspapers under Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015 the Company has published Un-Audited Standalone and Consolidated Financial Results of the Company for the quarter ended on December 31, 2025 in the newspapers and clippings of the same are being submitted for your reference and records.

You are requested to kindly take the same on record for further needful.

Thanking You,

Yours faithfully,

For Minda Corporation Limited

Pardeep Mann
Company Secretary
Membership No. A13371

NCLT Allows ₹2,500 cr Class Action Lawsuit against Jindal Poly Films

Our Bureau

New Delhi: The National Company Law Tribunal (NCLT), in a rare occurrence, admitted a class action lawsuit filed against Jindal Poly Films by minority shareholders, who had approached the court claiming damages of ₹2,500 crore for alleged unlawful actions undertaken by the company.

The tribunal clarified in the order, a copy of which was seen by ET, that it had not decided on the merits of the case but rejected arguments of Jindal Poly Films, its promoters and management that the class action lawsuit was not maintainable.

As per the class action lawsuit provisions, a public notice will now be issued and other shareholders can join the list of 40,000 minority shareholders who had filed the suit.

Legal experts said the ruling could have wide-ranging implications for the rights of minority shareholders of listed companies in India because class action lawsuits have been rarely tested in court and there is limited jurisdiction on the subject.

"In the present case we are not convinced on the issue on maintainability of the class action suit," said respondents (Jindal Poly Films). We reject the plea on maintainability," NCLT ruled. "Nevertheless, it is made clear that these class actions raised are yet to be adjudicated on merits and the same shall be independent from the observation raised herein. The respondents (Jindal Poly Films) are entitled to defend against all the allegations on merit basis. We do not rule anything on facts for the present."

A group of minority shareholders led by Ankit Jain have claimed damages for transactions undertaken by the company which they claimed stripped the company of value. The group had approached and informed Jindal Poly Films of their losses to minority shareholders. In response to ET's queries, a spokesperson for Jindal Poly Films said, "Jindal Poly reiterates that all business decisions were taken after due commercial wisdom with necessary approvals as required under applicable laws."

ET had reported on November 28, 2025, that the Securities and Exchange Board of India was investigating potential securities laws violations by Jindal Poly Films. Law firm ASA is representing Jindal Poly Films and Saraf and Partners is representing the minority shareholders. Further hearings in the case are scheduled for April.

Insolvency Case Against Alchemist Recalled After ED's Intervention

Our Political Bureau

New Delhi: The National Company Law Tribunal (NCLT), New Delhi, has recalled the Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) initiated against M/s Alchemist Limited, upon holding that the insolvency proceedings were vitiated by fraud, collusion, and malicious intent.

The Tribunal passed the order on February 3 after the Enforcement Directorate (ED), which is probing money laundering charges involving the Alchemist group in an alleged ₹1,842-crore scandal, intervened in the matter.

In a press statement the federal agency said that the NCLT, exercising its powers

under Section 95 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC), has categorically held that the insolvency framework cannot be misused as a shield to legitimate proceeds of crime or frustrate proceedings under the Prevention of Money Laundering Act.

ED's probe revealed that an application

under Section 90 of IBC was filed to initiate CIRP against M/s Alchemist Limited by M/s Sai Tech Medicare Pvt. Ltd. Subsequently, a Committee of Creditors (CoC) was constituted, dominated almost entirely by Alchemist Group entities themselves, with M/s Technology Parks Limited holding approximately 97% voting rights. ED placed before the

Tribunal detailed material demonstrating that the dominant CoC members were group entities accused of money laundering and beneficiaries of proceeds of crime including M/s Technology Parks Limited (voting share 97%) M/s Alchemist Township India Limited (voting share 1.74%) and M/s Alchemist Realty Limited (voting share 0.61%).

MINDA CORPORATION LIMITED

Registered Office: A-15, Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052
CIN: L74899DL1985PLC020401, Telephone: +91-0120 - 4442500
Corporate Office: D-6-11, Sector - 59, Noida - 201301, Uttar Pradesh,
E-mail: investor@mindacorporation.com, Website: www.sparkminda.com



EXTRACTS OF THE CONSOLIDATED AND STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

₹ (in Lakhs)

PARTICULARS	Consolidated						Standalone					
	Quarter Ended		Nine Months ended		Year Ended		Quarter Ended		Nine Months ended		Year Ended	
	31-Dec-25	30-Sep-25	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-24	31-Mar-25	31-Dec-25	30-Sep-25	31-Dec-24	31-Dec-24	31-Mar-25	
1. Total income from operations	1,56,366	1,53,831	1,26,165	4,49,114	3,76,404	5,08,863	1,29,254	1,25,288	1,04,708	3,68,992	3,09,337	4,18,209
2. Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	10,062	9,279	9,039	26,414	27,076	33,566	10,035	6,298	7,884	21,735	23,166	27,738
3. Net Profit for the period (before tax after exceptional items)	9,652	9,279	9,039	26,004	27,076	33,566	9,743	6,298	7,884	21,443	23,166	27,738
4. Net Profit for the period (after tax)	8,427	8,464	6,480	23,422	20,334	25,537	7,940	4,699	5,785	16,822	17,212	20,590
5. Total comprehensive income for the period (comprising Profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax))	8,552	8,780	6,082	23,887	20,396	25,425	7,946	4,778	5,785	16,907	17,248	20,592
6. Equity Share Capital	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782	4,782
7. Other Equity	24,773	23,181	21,1542	24,773	21,1542	21,15436	21,1450	20,629	18,4118	21,1450	18,4118	18,6291
8. Net Worth	2,52,517	2,43,963	2,16,324	2,52,517	2,16,324	2,20,218	2,16,232	2,08,411	1,88,900	2,16,232	1,88,900	1,91,073
9. Earnings Per Share (of ₹2/- each) (not annualised)												
(a) Basic (in ₹)	3.64	3.60	2.75	10.01	8.64	10.85	3.32	1.97	2.42	7.04	7.20	8.61
(b) Diluted (in ₹)	3.58	3.54	2.71	9.86	8.51	10.68	3.32	1.97	2.42	7.04	7.20	8.61
10. Debt Equity Ratio (in times)	0.51	0.53	0.39	0.51	0.39	0.61	0.62	0.64	0.44	0.62	0.44	0.73
11. Debt Service Coverage ratio (in times)	0.82	0.85	1.17	1.91	3.07	2.73	0.76	0.63	1.04	1.55	2.63	2.27
12. Interest Service Coverage ratio (in times)	5.97	5.57	10.68	5.39	11.72	7.84	5.41	4.05	9.54	4.35	10.15	6.64
13. Capital Redemption Reserve	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920	1,920

Notes:-

- The above financial results were reviewed by the Audit committee on February 05, 2026 and approved by the Board of Directors at their meeting held on the same date.
- The above results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of Indian Accounting Standards (Ind AS) as notified under Section 133 of the Companies Act, 2013 and read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- The Board of Directors of the Company has proposed interim dividend of Rs. 0.60 per equity share (30%) (face value of Rs. 2 per share) aggregating to Rs. 1,434 lakhs for the year 2025-2026 in its meeting held on February 05, 2026.
- The above is an extract of the detailed format of the Financial Results for the quarter and nine months ended on December 31, 2025 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 & 524 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the standalone and consolidated results are available on the stock exchanges website(s); www.nsclindia.com, www.bseindia.com and on Company's website at www.sparkminda.com."

Place : New Delhi
Date : February 05, 2026

Minda Corporation is a flagship company of Spark Minda, one of the leading automotive component manufacturer in India with a pan-India presence and significant international footprint.

Scan the QR for
Detailed Financial Results



For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Ashok Minda
Chairman & Group CEO

AS
PH
APEEJAY
SURRENDRA
PARK HOTELS

APEEJAY SURRENDRA PARK HOTELS LIMITED

CIN: L85110WB1987PLC222139

Registered Office: 17 Park Street, Kolkata – 700 016

Tel.: +91 33 22499000, E-mail: investorrelations@asphl.in, Website: www.theparkhotels.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2025

(Rs, in crores, unless otherwise stated)

S. No.	Particulars	Quarter ended			Nine months ended			Year ended		
		31-Dec-25	30-Sep-25	31-Dec-24	31-Dec-25	31-Dec-24	31-Dec-24	31-Dec-25	30-Sep-25	31-Dec-24
	Revenue From Operations	200,06	167,36	177,49	523,58	454,13	631,45			
I	Other Income	1.49	1.20	1.10	4.97	19.03	21.90			
	Total Income	201,55	168,56	178,59	528,55	473,16	653,35			
	Profit before Finance costs, Depreciation and Amortisation expense and Tax	72,12	50,20	65,59	170,00	165,35	230,32			
III	Profit before Tax for the period/year	41.17	27.81	45.38	91.40	108.92	148.11			
IV	Profit after Tax for the period/year	24.19	16.21	32.16	53.84	57.02	83.60			
V	Total Comprehensive Income for the period/year, net of tax	23.32	18.07	31.41	54.56	57.03	82.64			
VI	Paid-up Equity Share Capital (Face value per share Re. 1 each attributable to equity holders of the parent)	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34	21,34			
VII	Other Equity							1,262,78		
VIII	Basic (Rs.)	1.13	0.76	1.51	2.52	2.67	3.92			
	Diluted (Rs.)	1.13	0.76	1.51	2.52	2.67	3.92			
	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)	(not annualised)			

Notes to unaudited consolidated Financial Results

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results are available on the websites of BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nsclindia.com, respectively, and on the Company's website at www.theparkhotels.com
- The above financial results have been reviewed by the Audit & Risk Management Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 04, 2026. The Statutory auditors have expressed an unmodified opinion on these consolidated audited financial results.



For and on behalf of the Board of Directors of
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited
Sd/-
Vijay Dewan
Managing Director
DIN: 00051164

Place: New Delhi
Date: February 4, 2026

CELEBRATING CINEMA'S DHURANDHAR PERFORMANCE



UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2025

In compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Board of Directors of PVR INOX Limited ("Company") at its meeting held on Thursday, 05th February, 2026 approved the unaudited financial results (standalone and consolidated) for the quarter & nine months ended 31st December, 2025 ("results").

The results along with the limited review report are available on the website of the Company at <https://www.pvrinemas.com/investors-section> and on websites of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nsclindia.com respectively.

The same can also be accessed by scanning the following Quick response (QR) code:



Place: Gurugram

Date: February 05, 2026

By Order of the Board for

PVR INOX Limited

Sd/-

Ajay Kumar Bijli

Managing Director

PVR INOX

1791 SCREENS

112 CITIES

358 CINEMAS

PVR INOX LIMITED

Reg'd. Office: 7th Floor, Lotus Grandeur Building,

Vera Desai Road Opposite Gundeche Symphony

Andheri (W) Mumbai 400053, India

Corporate Office: Block A, 4th Floor, Building No 9A, DLF Cyber City,

Phase-III, Gurugram-122002, Haryana, India

E: cosec@pvrinemas.com

W: www.pvrinemas.com

CIN: L74899MH1995PLC387971

THE COUNT Net premium income rises to ₹1.3 lakh crore; New business premium for 9 months up 28% to ₹8,288 cr

LIC Profit Surges 17% in Dec Quarter on Higher Income, Better Margins

Our Bureau

Mumbai: Life insurance Corp of India (LIC), the nation's biggest insurer and institutional investor, Thursday reported a 17% year-on-year rise in net profit to ₹1,358 crore for the December quarter, driven by higher premium income, improved margins and strong investment income. The earnings exceeded analysts' expectations.

LIC reported a net premium income of ₹1,165 crore in the year-on-year period. Net premium income during the quarter rose to ₹1.3 lakh crore from ₹1.1 lakh crore a year earlier.

"Our focus is on improving all operating parameters, and one of the most important among them is the new business margin," said LIC MD

₹59.2 LAKH CR

ASSETS UNDER MANAGEMENT, UP 8% YOY



and CEO R Doraiswamy. "While we do not give formal guidance, we expect margins to improve further on the back of product mix changes and cost rationalisation."

Following the GST exemption on individual policies, net new business momentum remained strong with first-year premium climbing to ₹10.65 crore from ₹7.25 crore a year ago.

For the nine months ended December 2025, profit after tax rose 16.7% to ₹3,588 crore. Assets under management grew 8% year-on-year to ₹63.0 lakh crore, while the solvency ratio improved to 2.2 from 2.1 a year earlier. The overall expense ratio declined sharply by 1.62 basis points

JM Financial Net Jumps 50% to ₹313 crore

Mumbai: JM Financial's consolidated net profit increased 55% to ₹313 crore in the quarter ended December 2025 from ₹208 crore a year earlier, led by higher fee and brokerage income and helped by a writeback in provisions and lower costs.

Fee and commission income increased 32% year-on-year to ₹306 crore in the quarter ended December 2025. Brokerage income increased 17% to ₹16 crore from ₹12 crore a year earlier.

Financing fees fell 22% to ₹240 crore from ₹304 crore. The company also benefitted from a write back in provisions of ₹23 crore in the quarter from ₹16 crore a year ago.

"Wealth management expansion (30%) and asset and wealth relationship manager headcount increased by 4% year on year to 1,057, recurring assets under management (AUM) up 33% year on year to ₹33,144 crore...Affordable Home Loans AUM increased by 23% YoY to ₹3,163 crore," the company said. —Our Bureau

British International Puts ₹90 crore into UC Impower Fund

Atmidip Ray

Kolkata: British International Investment (BII) has put in ₹90 crore in an India-focused early stage equity fund, making it the largest funding in the ₹500 crore vehicle. The BII UC Fund aims to provide early-stage support to potential services and climate solution firms. "As the fund's first development finance investor, BII's participation is a strong endorsement for our strategy for long-term, impact-driven value creation in India," Mohan Venkateswaran, one of the partners of the fund, told ET.

The Michael & Susan Dell Foundation, Sorenson Impact Foundation, Caspian Impact Investment Adviser and the LifeBank Microfinance Foundation are also among the investors, who have already put in their money in UC Impower, incubated by Unilus Capital in 2023.

"This investment enables us to reach underprivileged businesses serving underprivileged families and MSMEs (micro, small and medium enterprises) and deepen our impact in India," said Shilpa Kumar, managing director and India head at BII.

BII has committed to invest up to ₹1 billion in the early-stage fund over 2022-2026. BII's long-term, cross-country-level investment portfolio with ₹2.5 billion invested across more than 600 businesses.

Overall, the development finance institution has invested in more than 1,600 businesses across 60 countries, with total net assets of ₹9.7 billion.

UC Impower has so far raised about ₹435 crore, said people familiar with the matter.

A number of leading family offices in India have also invested in it. The final close is likely in April.

to 11.7% during the nine-month period.

LIC said its value of new business (VNB) for the nine months rose 28% to ₹2,288 crore, with the net VNB growth rate being 170 basis points higher than the APE. For the December quarter, alone, the APE margin stood at 20.2%. The company said it absorbed a roughly ₹1,400 crore hit from the withdrawal of GST input tax credit benefits through lower expenses and improved product mix, helping contain margin pressures.

The company said it has been participating in products with non-par accounting for 36.5% of individual business on an APE basis during the nine months, up from 27.7% a year ago. Yield on investments in policyholders' funds excluding realised gains was 8.8% for the nine months, up from 8.6% in the corresponding period. A deconsolidation of its post-IPO towards non-par products. That shift is now largely stabilising around the 36% level, with scope for only marginal upside from here," he said.

EQUITY PROFIT BOOKING

Investment income remained a key earnings driver, with equity profit booking increasing to roughly ₹24,000 crore compared with about ₹20,000 crore in the same period last year. Management said returns were supported by a combination of debt income and active equity market gains.

HEALTH INSURANCE FORAY

LIC said that it will consider strategic investments in standalone health insurers when compelling opportunities emerge.

LEVERAGING REAL ESTATE

LIC is reviewing its real estate portfolio to improve returns but ruled out outright asset sales, saying the focus will be on better utilisation and enhanced yield generation. "The focus is on leveraging properties to enhance returns," said Dinesh Pant managing director LIC.

NSC IPO

The management said that the IPO is still several months away, so there is no specific time to evaluate. "We have not decided whether or how much stake to offload," said Doraiswamy.

LIC STAKE DILUTION

Management said it has received no formal communication from the government regarding further stake dilution in LIC itself. Any divestment timelines remain subject to government decisions.

STATEMENT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER 2025

PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	FOR QUARTER ENDED	FOR NINE MONTHS ENDED	FOR THE YEAR ENDED	FOR QUARTER ENDED	FOR NINE MONTHS ENDED	FOR THE YEAR ENDED
	31.12.2025	30.09.2025	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
1 Revenue from Operations	₹2,11,89,94,20,000	₹2,02,69,34,20,000	₹16,64,94,01,50,000	₹27,78,17,10,000	₹4,51,52,61,00,000	₹2,36,25,24,70,000
2 Other Income	₹22,44,44,00,00,000	₹13,22,83,00,00,000	₹1,88,71,33,00,00,000	₹3,79,04,22,00,00,000	₹1,93,84,10,00,00,000	₹1,05,16,45,00,00,000
3 Total Income	₹2,34,34,38,20,00,00,000	₹2,06,93,17,20,00,00,000	₹19,53,65,53,50,00,00,000	₹3,12,05,34,70,00,00,000	₹6,44,33,10,00,00,000	₹3,41,01,75,70,00,00,000
4 Total Expenses	₹2,18,93,93,50,00,00,000	₹2,01,74,03,50,00,00,000	₹17,73,55,45,50,00,00,000	₹3,16,31,04,50,00,00,000	₹5,36,42,13,50,00,00,000	₹3,00,65,51,50,00,00,000
5 Net Profit/(Loss) for the period before Share of Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures, Exceptional Items and Tax	₹15,99,56,10,00,00,000	₹2,79,41,90,00,00,000	₹3,46,04,24,00,00,000	₹2,52,65,85,00,00,000	₹14,04,32,31,00,00,000	₹1,30,30,42,00,00,000
6 Share Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures	-	-	-	-	-	-
7 Net Profit/(Loss) for the period before Exceptional Items and Tax	₹15,99,56,10,00,00,000	₹2,79,41,90,00,00,000	₹3,46,04,24,00,00,000	₹2,52,65,85,00,00,000	₹14,04,32,31,00,00,000	₹1,30,30,42,00,00,000
8 Net Profit/(Loss) for the period before Tax	₹15,99,55,10,00,00,000	₹2,79,40,90,00,00,000	₹3,46,04,24,00,00,000	₹2,52,65,85,00,00,000	₹14,04,31,00,00,000	₹1,30,30,41,00,00,000
9 Net Profit/(Loss) for the period after Tax	₹12,13,55,60,70,00,00,000	₹2,61,04,20,00,00,000	₹2,97,53,51,00,00,000	₹5,96,72,00,00,000	₹12,96,57,10,00,00,000	₹1,07,51,57,00,00,000
10 Net Profit/(Loss) for the period after Tax, attributable to Equityholders of the Parent	-	-	-	-	-	-
11 Total Comprehensive Income for the period before Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures, Exceptional Items and Tax and Other Comprehensive Income (after tax)	₹12,19,70,70,00,00,000	₹6,75,37,70,00,00,000	₹24,96,14,00,00,000	₹3,36,78,70,00,00,000	₹11,02,16,70,00,00,000	₹1,37,77,70,00,00,000
12 Total Comprehensive Income for the period attributable to Equityholders of the Parent	-	-	-	-	-	-
13 Total Comprehensive Income for the period (Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures, Exceptional Items and Tax and Other Comprehensive Income (after tax))	₹12,19,70,70,00,00,000	₹6,75,37,70,00,00,000	₹24,96,14,00,00,000	₹3,36,78,70,00,00,000	₹11,02,16,70,00,00,000	₹1,37,77,70,00,00,000
14 Total Comprehensive Income for the period (Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures, Exceptional Items and Tax and Other Comprehensive Income (after tax))	₹14,12,24,70,00,00,000	₹14,12,24,70,00,00,000	₹14,12,24,70,00,00,000	₹14,12,24,70,00,00,000	₹14,12,24,70,00,00,000	₹14,12,24,70,00,00,000
15 Total Comprehensive Income for the period before Tax	₹15,99,55,10,00,00,000	₹2,79,40,90,00,00,000	₹3,46,04,24,00,00,000	₹2,52,65,85,00,00,000	₹15,92,34,70,00,00,000	₹11,03,71,70,00,00,000
16 Net Profit/(Loss) for the period after Tax	₹12,13,55,60,70,00,00,000	₹2,61,04,20,00,00,000	₹2,97,53,51,00,00,000	₹5,96,72,00,00,000	₹12,96,57,10,00,00,000	₹1,07,51,57,00,00,000
17 Net Profit/(Loss) for the period after Tax, attributable to Equityholders of the Parent	-	-	-	-	-	-
18 Total Comprehensive Income for the period (Profit/(Loss) of Associates and Joint Ventures, Exceptional Items and Tax and Other Comprehensive Income (after tax))	₹12,19,70,70,00,00,000	₹6,75,37,70,00,00,000	₹24,96,14,00,00,000	₹3,36,78,70,00,00,000	₹11,02,16,70,00,00,000	₹1,37,77,70,00,00,000
19 Outstanding Debt	₹15,84,77,00,00,00,000	₹12,28,38,00,00,00,000	₹1,31,47,92,00,00,000	₹15,94,51,50,00,00,000	₹1,31,47,92,00,00,000	₹1,34,46,54,50,00,00,000
20 Debt Equity Ratio (times)	0.60	0.68	0.77	0.60	0.75	0.70
21 Earnings Per Share (₹)	8.81	5.53	2.69	18.46	4.14	9.41
22 Dividend Per Share (₹)	-	-	-	-	-	-
23 Dividend Payout Ratio (%)	-	-	-	-	-	-
24 Dividend Yield (%)	-	-	-	-	-	-
25 Interest Coverage Ratio (times)	3.08	2.27	1.08	4.28	1.08	1.07
26 Interest Service Coverage Ratio (times)	9.63	6.59	3.59	7.26	3.33	4.02
27 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
28 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
29 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
30 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
31 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
32 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
33 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
34 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
35 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
36 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
37 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
38 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
39 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
40 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
41 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
42 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
43 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
44 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
45 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
46 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
47 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
48 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
49 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
50 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
51 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
52 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
53 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
54 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
55 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
56 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
57 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
58 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
59 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
60 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
61 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
62 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
63 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
64 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
65 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
66 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
67 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
68 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
69 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
70 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
71 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
72 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
73 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
74 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
75 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
76 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
77 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
78 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
79 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
80 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
81 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
82 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
83 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
84 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
85 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
86 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
87 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
88 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
89 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
90 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
91 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
92 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
93 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
94 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
95 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
96 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
97 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
98 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
99 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
100 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
101 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
102 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
103 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
104 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
105 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
106 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
107 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
108 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
109 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
110 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
111 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
112 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
113 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
114 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
115 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
116 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
117 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-
118 Interest Coverage Ratio (times)	-	-	-	-	-	-

